

BSE Limited	National Stock Exchange of India Ltd.,		
Phiroze JeeJeeBhoy Towers,	"Exchange Plaza",		
Dalal Street,	5 th Floor, Plot No. C-1, G Block,		
<u>Mumbai - 400 001</u>	Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)		
	<u>Mumbai – 400 051</u>		
SCRIP CODE : 523367	SCRIP CODE : DCMSHRIRAM		

Kind Attn.: Department of Corporate Communications/Head - Listing Department

Sub: Newspaper advertisement for Notice of 34th Annual General Meeting

and e-voting information

Dear Sir(s),

We enclose copies of the Newspaper Advertisements published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on June 30, 2023 with respect to the Notice of 34th Annual General Meeting and e-voting information.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully, For DCM Shriram Ltd.

(Sameet Gambhir)
Company Secretary and Compliance Officer

Dated: 30.06.2023

Encl.: As above

FINANCIAL EXPRESS

UK says India trade talks discussing biz travel

BRITAIN WILL DISCUSS temporary business visas as part of Free Trade Agreement talks with India but any deal will not contain broader immigration commitments or access to Britain's labour market for Indian workers, trade minister Kemi Badenoch said.

Britain launched trade talks with India in January last year, and Prime Minister Rishi

Sunak has stressed that he won't sacrifice quality for speed in negotiations.

Last year interior minister Suella Braverman sparked a row with comments about the possible impact of Indian migrants in trade talks, citing concern both with any "open borders migration policy with India" and those who overstay visas. -REUTERS



CIN No.: L74899DL1989PLC034923 Regd. Office: 2nd Floor (West Wing), Worldmark-1, Aerocity, New Delhi-110037 Tel.: 011-42100200 | E-mail: shares@dcmshriram.com

Website: www.dcmshriram.com NOTICE OF 34th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 34th Annual General Meeting ('AGM' of the Company is scheduled to be held on Tuesday, July 25, 2023 at 10:30 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ('OAVM'), in compliance with the various circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ('MCA') and Securities and Exchange Board of India ('SEBI'), from time to time. The Members are requested to attend the AGM through VC/OAVM by following the procedure prescribed in the AGM Notice dated May 10, 2023.

Electronic copies of the AGM Notice, procedure and instructions for e-voting and the Annual Report for financial year 2022-23 have already been sent to all those Members, whose email IDs are registered with the Company/Depositories. The physical copy of the Annual Report will be provided to those Member(s), who specifically request for the same.

The AGM Notice including procedure and instructions for e-voting and the Annual Report for the financial year 2022-23 have also been uploaded and displayed on the Company's website at www.dcmshriram.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, website of NSDL at www.evoting.nsdl.com and on the website of RTA at

www.mcsregistrars.com. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the 'Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the 'Rules') and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) egulations, 2015 (the 'Listing Regulations'), the Company providing electronic voting ('e-voting') facility to the Members to enable them to cast their votes electronically.

The items of business given in the aforesaid Notice of the AGM shall be transacted through electronic voting facilities provided by the National Securities Depository Limited ('NSDL')

Members are further informed that (a) Remote e-voting shall commence at 9:00 a.m. (IST) on Saturday, July 22, 2023 and end at 5:00 p.m. (IST) on Monday, July 24, 2023; (b) No remote e-voting shall be allowed beyond the aforesaid date and time, and remote e-voting module shall be disabled thereafter by NSDL. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; (c) The Cut-off date for the purpose of e-voting has been fixed as Tuesday, July 18, 2023. (d) A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained with RTA/Depositories as on the Cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/ e-voting at the AGM. (e) Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as of the Cut-off date may obtain the User ID and Password by sending a request at shares@dcmshriram.com or evoting@nsdl.co.in or helpdeskdelhi@mcsregistrars.com. However, if any person is already registered with NSDL for remote e-voting, he can use his existing User ID and Password for casting his vote. (f) The e-voting facility will also be made available during the AGM to enable the Members attending the AGM who have not cast their vote through remote e-voting, to exercise their voting rights; (g) Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend and participate in the AGM through VC/OAVM, but shall not be entitled to cast their e-vote again

For e-voting instructions, Members are requested to go through the instructions given at Note No 27 of the aforesaid Notice of the AGM. In case of any queries/grievance, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and remote e-voting user manual for Members available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or can call at 022 - 4886 7000 and 022 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre at evoting@nsdl.co.in or contact Mr. Amarjit from RTA at 011-4140 6148 (E-mail: admin@mcsregistrars.com) or the Company's officials Mr. Amit Mehra / Mr. Vipul Jain at 011-42100200 (E-mail shares@dcmshriram.com).

The detailed process and manner of remote e-voting, e-voting at the AGM, instructions for attending the AGM through VC/OAVM, etc.

are provided in detail in the AGM Notice.

Place: New Delhi Date: June 29, 2023

Sameet Gambhir Company Secretary

For DCM Shriram Ltd

ATLAS CYCLES (HARYANA) LIMITED Regd. Office: Industrial Area, Atlas Road, Sonepat - 131001, Harvana CIN: L35923HR1950PLC001614 Tel.: 0130-2200001 - 06, Fax: 0130-2200018 Email:companysecretary@atlascycles.co.in

Website:www.atlasbicycles.com NOTICE OF THE 71⁵⁷ ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 71st Annual General Meeting ("AGM") of the members of M/s. Atlas Cycles (Haryana) Limited will beheld on Monday, July 24, 2023 at Hotel Sagar, 148-R, Model Town, Atlas Road, Sonepat - 131001, Haryana at 12.00 Noon (I.S.T.) to transact the businesses, as set out in the

The Notice of 71st AGM along with Proxy Form, Ballot Form, Attendance Slip and Annual Repor containing Audited Financial statements for the year ended 31st March, 2022 on standalone and consolidated basis and the Report of the Auditors and Directors (together with annexures thereto) have been sent in electronic form to those members whose e-mail addresses are registered with the Compan and/or Depositories/Registrar and Share Transfer Agent of the Company unless the members hav requested hard copy of the same. Physical copies have been dispatched through permitted mode to a

Members, whose names appeared in the Register of Members / Record of Depositories/Registrar and Share Transfer Agent on 23rd June, 2023 (i.e., cut-off date for dispatch) were considered as eligible for dispatch of aforesaid notice and annual report. The Company has completed dispatch of Notice and Annual Report through e-mail and other permitted mode (to those shareholders who has not registered their email addresses with the Company/Depositories/Registrar and Share Transfer Agent of the Company) on 29th June, 2023. The Annual Report including the Notice of 71st AGM and the instructions for e-votingare available on the website of the Company www.atlasbicycles.com and on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of National Depository Services India Limited at

Those shareholders who have not registered their email addresses are requested to register the same at the earliest in respect of electronic holdings through concerned depository participants and in respect of physical holdings with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Mas Services Ltd., T - 34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase - II, New Delhi - 110020, Email: investon@masserv.com, Tel.: 011

A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a Proxy to attend and vote on a poll in place of himself/ herself and the Proxy need not to be a Member of the Company. The instrument appointing Proxy should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the AGM.

In compliance with section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide its Shareholders with facility of "remote e-voting" (e-voting from a place other than venue of the AGM), through e-voting

Services provided by National Securities Depository Limited (NSDL), to enable them to cast their votes electronically on all the Resolutions as set out in the Notice of AGM, details of which are given as A person whose name is recorded in the Register of Members or in Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. Monday, 17th July, 2023 only shall be entitled to

avail the facility of remote e-voting as well as voting in the 71stAGM through Ballot Paper. The remote e-voting period will begin at 9:00 A.M. on Friday, 21st July, 2023 and end at 5:00 P.M. on

Sunday, 23rd July, 2023. The e-voting module will be disabled by NSDL thereafter on 23rd July, 2023 at 5:00 P.M. i.e., voting shall not be allowed beyond 5:00 P.M. on 23rd July, 2023. Once the vote on a resolution is casted, the shareholder is not allowed to change it subsequently. The Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the Meeting but shall not be

entitled to cast their vote again. The Members who have not cast their vote by remote e-voting shall be able to vote at the Meeting through ballot paper. The voting rights of members shall be in proportion to their shares of the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date of 17th July, 2023. Any person, who acquires shares of the Company and

become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. 17th July, 2023 may obtain the login ID and password by sending a request at investor@masserv.com

In case of any queries or issues regarding e-voting, members may contact to Mr. Sharwan Mangla (General Manager), Mas Services Limited, RTA at T - 34, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase - II, Nev Delhi - 110020, Tel.: 011-26387281/82/83, Email: investor@masserv.com to address the grievances in

Mr. Rajiv Bhasin, Chartered Accountant (Membership No.093845), Partner, M/s. Mehra Khanna & Co.

Chartered Accountants has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the e-voting process in a fair The results of voting will be announced on or before 26th July, 2023 and will be communicated to the

Stock Exchanges and hosted on the website of the Company For Atlas Cycles (Haryana) Limited

Place : Sonepat

: 29.06.2023

financialexp.epap.in

Rakesh

M.No. A48901

Company Secretary & Compliance Officer

KHARIF SOWING SLUGGISH

Onion prices inch up, may rise faster by Dec

Retail inflation in veggies has been negative for a year

SANDIP DAS New Delhi, June 29

CLOSE ON THE heels of the spike in tomato prices, onion, another staple vegetable, has turned dearer.

After a prolonged spell of decline, onion prices have risen in most parts of the country in the last one month and may spike further. Delay in kharif sowing caused by late onset of monsoon and a likely fall in area under cultivation have adversely affected supplies already, and the crunch may escalate by December, trade sources said.

Traders and farmers from Maharashtra say the stocks are currently adequate in the state, and may suffice to meet

demand for the next 3 months. However with the possibility of lower area under the kharif crops, supply could be hit by December and prices are likely to go up, they added.

"Kharif sowing is likely to be hit and could result in spike in prices by beginning of winter months," Balasaheb Misal, former director, Manmard (Maharashtra) mandi board and an onion farmer said. Farmers have not received remunerative prices by growing onions since last one year, he added.

"Kharif sowing so far has been sluggish, the farmers could shift to other crops this season as income from onions have declined because of robust production," Joydutt Holkar, member, APMC mandi, Vashi, Navi Mumbai, said.

Currently the benchmark prices at Lasalgaon, Maharashtra, the hub of the country's onion trade is in the range of ₹800 – 900 /quintal which PRICE FLUCTUATION Monthly zone-wise change



Source: price monitoring cell, department of consumer affaris as on June 28, 2023

Onion production (million tonne) 26.1 2019-20 2021-22 31 2022-23 Source: agriculture ministry

is at the same level since last one year.

However, according to the department of consumer

affairs data, there has been a significant spike in average retail onion prices across all the five regions in the last one

-30.2 -30.9

Dec Jan Feb Mar Apr May

-15.9

Source: MoSPI

Onion inflation

(year on year %)

-21.3

2022

month. Although retail prices have declined compared to previous year.

In May 2023, retail onion inflation was down 5.48% on year. However, the inflation for kitchen bulbs had declined in double digit numbers during May, 2023-April, 2022. At present, the government has 0.14 million tonne (MT) onion stock which was purchased from the farmers a couple of months back.

The government had procured 0.25 MT of onion for the buffer stock in 2022-23 against 0.2 mt purchased in the previous year. The onion stock was pro-

cured through farmers' cooperative NAFED from farmers of Maharashtra, Gujarat and Madhya Pradesh.

Since the beginning of 2021, the government has not imposed a ban on onion exports which was the norm a few years back.

"The extant export policy of

'May take more than a year to

onions is free and only the export of onion seed is 'restricted' and that too is permitted under authorisation from DGFT," the commerce ministry has stated.

The estimated production of onion during the 2022-23 crop year (July-June) is 31.01 MT against 31.7 MT reported in the previous year. The output of kitchen bulbs was 26.64

India is the biggest producer of onion and Maharashtra, Madhya Pradesh, Karnataka and Gujarat have more than 80% share in the country's production.

Rabi onion harvested during April - June accounts for around 65% of the country's onion production and meets the consumer's demand till the kharif crop is harvested from October-November. Kharif harvested onions are not stored because of higher moisture content thus entering the

SIX YEARS OF GST

₹1.5 trn monthly tax revenue is 'new normal'

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, June 29

SIX YEARS AFTER the rollout of the biggest indirect tax reform in India, Goods and Services Tax (GST) revenue of ₹1.5 trillion every month has

become a new normal and tax officers are focusing on dealing with fraudsters who are adopting newer modus operandi to game the system, causing loss to the exchequer.

₹3 trillion since inception of GST. It was over ₹1 trillion in

AICICI

PRUDENTIAL

Place: Mumbai

Date: June 29, 2023

MUTUAL FUND

2022-23.

Thinktank Global Trade Research Initiative (GTRI) said the most critical pending GST reform is upgradation of GST Network to prevent fake supplies and fraudulent claims of Input Tax Credit (ITC). "Data analysis

physical

checks alone can-

not completely

solve the prob-

lem. The GSTN

should enable

linking of invoice

level information

filed for claiming

ITC by buyer

Even after six years, the GSTN is unable to connect the supplies in a value chain, resulting in significant revenue loss to govt

> (from GSTR 3B) with the information provided by input suppliers (GSTR 2A and GSTR 2B)," Srivastava said. Even after six years, the

> GSTN is unable to connect the supplies in a value chain, resulting in significant revenue loss to the government and causing problems for honest businesses, Srivastava added.

ONGC sells KG gas to Torrent, GAIL at \$11

STATE-OWNED OIL and Natural Gas Corporation (ONGC) has sold initial gas it is producthe Bay of Bengal to three firms, including Torrent Gas, sources said.

In an e-auction, the firm sold 1.4 million standard cubic meters per day - a fraction of the planned output from the block that sits next to Reliance Industries' prolific KG-D6 area in the Bay of Bengal, to Torrent Gas Pune Ltd, GAIL (India) Ltd and Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL).

GAIL picked up 0.8 mmscmd while HPCL took 0.42 mmscmd and Torrent 0.12 mmscmd, sources said. The company had sought bids from users like city gas operators that sell CNG to automobiles and pipe cooking gas to households, companies using gas to produce fertiliser or make electricity.

ONGC asked companies to quote a premium 'P' that they are willing to pay over and above the rate arrived at by calculating 14% prevailing Brent oil price plus \$1 per million British thermal unit, the tender document showed. -PTI

bring inflation down to 4%' **AJAY RAMANATHAN** Mumbai, June 29

ing from its KG basin fields in **THE RESERVE BANK** of India (RBI) may take more than a year to bring inflation down to the 4% target, says monetary policy committee's exter-

> nal member Jayanth Varma. However, Varma feels that a faster glidepath will come at the cost of growth. "The current real reporate

will in my opinion keep inflation within the tolerance band and gradually align it to the 4% target," Varma said in an interaction with Financial Express. "Inflation risk has moder-

ated considerably due to

lower crude oil and commod-

ity prices as well as the abating of supply chain disrup-Inflationary tions. expectations have come down and are now well anchored." India's retail inflation has

fallen to a two-year low of 4.25% in May from 6.4% in February aided by large favourable base effects. RBI has projected retail inflation at 5.1% for 2023-


24 (April-March) with April-June at 4.6%, July-September at 5.2%, October-December at 5.4% and January-March at 5.2%. In 2021, the government

had mandated RBI to maintain retail inflation at 4% with a margin of 2% on either

JAYANTH R VARMA. EXTERNAL MEMBER OF RBI MPC

The current real repo rate will in my opinion keep inflation within the tolerance band and gradually align it to the 4% target

The rate hikes over the last year or so are working their way through the economy, and this is suppressing domestic demand



side for a five year period ending March 2026.

Going ahead, Varma believes that inflation will decline due to the lagged effect of the rate hikes that were undertaken during the last year or so, supply side

measures by the government, as well as the lagged effect of declining wholesale prices. However, he has acknowl-

edged that the process of bringing inflation under control is still a work in progress, and that it would be "premature to declare victory" over inflation at this point of time. In its June monetary pol-

icy, the central bank's mone-

tary policy committee left the reporate unchanged at 6.5% and maintained the overall stance at "withdrawal of accommodation" In the subsequent minutes to the policy, Varma expressed reservations over

RBI's persistence on the 'withdrawal of accommodation' stance as he feels that this can have an adverse impact on economic growth. "There are a lot of things that can go wrong (on

growth), and the MPC should in my view keep a careful watch on this. The biggest concern is of course the unfavourable global economic and geopolitical environment," he said.

"The rate hikes over the last year or so are working their way through the economy, and this is suppressing domestic demand," he added

Varma also believes that an excessively high real interest rate could delay the revival in private capital

ACC

ACC Limited CIN: L26940MH1936PLC002515,

Phone: +91 22 41593321 E mail: ACC-InvestorSupport@adani.com; Website: www.acclimited.com

NOTICE OF THE 87[™] ANNUAL GENERAL MEETING, RECORD DATE FOR DIVIDEND AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 87th Annual General Meeting (AGM) of Members of ACC Limited will be held on Thursday, 20" July, 2023 at 10:00 a.m. IST through Video Conference (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the businesses, as set out in the Notice convening AGM. The Company has already dispatched the Annual Report for the financial year 2022-23 along with the Notice convening AGM, through electronic mode to the Shareholders whose email addresses are registered with the Company and / or Depositories in accordance with the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India. The Annual Report along with the Notice of the AGM is also available on the website of the Company at www.acclimited.com

Record date for the purpose of dividend entitlement

The Company has fixed Friday, 7th July, 2023 as 'Record Date' for determining entitlement of Shareholders for receiving Dividend - Rs. 9.25 (Rupees Nine and Twenty Five Paise Only) per Equity Share of Rs. 10/- each (fully paid-up) for the financial year ended March 31, 2023 and the same shall be payable subject to approval of the Shareholders at the ensuing Annual General Meeting ('AGM') of the Company. The dividend, as recommended by the Board of Directors, if approved at the AGM will be paid on or after 25" July 2023.

Remote e-voting and e-voting during AGM

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Shareholders are provided with the facility to cast their votes on all resolutions as set forth in the Notice convening the AGM using electronic voting system ('Remote e-voting') provided by KFintech. The voting rights of Shareholders shall be in proportion to the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Thursday, 13" July, 2023 ('cut-off date').

19" July, 2023 at 5.00 p.m. IST. During this period, the Shareholders may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by KFintech thereafter. Those Shareholders, who shall be present in the AGM through VC/OAVM facility and had not cast their votes on the Resolutions through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM.

AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their votes again.

Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Shareholder of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company and holds shares as on the cut-off date; may obtain the login ID and password by sending a request to evoting@kfintech.com. However, if he/she is already registered with KFintech for remote e-voting, then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the votes.

https://evoting.kfintech.com (KFintech Website) or contact Ms. C Shobha Anand, at evoting@kfintech.com or call KFintech's toll free No. 1-800-309-4001 for any further clarifications.

Vinod Bahety

For ACC Limited

Chief Financial Officer

Registered Office: Cement House, 121, Maharshi Karve Road, Mumbai - 400020

capital withdrawal option (IDCW option) of the Schemes, subject to availability of

- 5 The distribution will be subject to the availability of distributable surplus and may be lower depending upon the extent of distributable surplus available on the record date under the IDCW option of the Schemes.
- # Subject to deduction of applicable statutory levy, if any

Schemes, at the close of business hours on the record date.

The distribution with respect to IDCW will be done to all the unit holders/beneficial owners whose names appear in the register of unit holders/Statement of beneficial owners maintained by the Depositories, as applicable under the IDCW option of the

or the immediately following Business Day, if that day is a Non – Business Day.

It should be noted that pursuant to payment of IDCW, the NAV of the IDCW option of the Schemes would fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

For ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Authorised Signatory No. 013/06/2023

To know more, call 1800 222 999/1800 200 6666 or visit www.iciciprumf.com Investors are requested to periodically review and update their KYC details along with their mobile number and email id.

To increase awareness about Mutual Funds, we regularly conduct Investor Awareness Programs across the country. To know more about it, please visit https://www.iciciprumf.com or visit AMFI's website https://www.amfiindia.com Mutual Fund investments are subject to market risks,

read all scheme related documents carefully.

Date: 28th June, 2023

Place: Mumbai

New Delhi

The remote e-voting period commences on Monday, 17th July, 2023 at 9.00 a.m. IST and will end on Wednesday.

The Shareholders who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the

In case of any query and/or grievance, in respect of voting by electronic means, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting user manual available at the download section of

The details of the AGM are available on the website of the Company at www.acclimited.com, and BSE Limited at www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com. By Order of the Board of Directors.

MT in 2020-21.

market directly.

To apprehend black sheep, who operate as syndicates and create fake entities on the basis of forged documents to claim input tax credit (ITC), tax officers have started using data analytics, artifical intelligence and machine learning aiming to curb evasion, which was over

ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Corporate Identity Number: U99999DL1993PLC054135

Registered Office: 12th Floor, Narain Manzil, 23, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001. Corporate Office: One BKC, 13th Floor, Bandra Kurla Complex, Mumbai - 400 051. Tel.: +91 22 2652 5000, Fax: +91 22 2652 8100, Website: www.iciciprumf.com,

Email id: enquiry@icicipruamc.com Central Service Office: 2nd Floor, Block B-2, Nirlon Knowledge Park, Western Express

Highway, Goregaon (E), Mumbai - 400 063, Tel.: 022 2685 2000 Fax: 022 26868313

Notice to the Investors/Unit holders of ICICI Prudential Multi-Asset Fund and ICICI Prudential Equity-Arbitrage Fund (the Schemes) Notice is hereby given that ICICI Prudential Trust Limited, Trustee to ICICI Prudential Mutual Fund has approved the following distribution under Income Distribution cum

distributable surplus on the record	date i.e. on July 4, 2023*:	
Name of the Schemes/Plans	Quantum of IDCW (₹ per unit) (Face value of ₹ 10/- each) \$#	NAV as on June 28, 2023 (₹ Per unit)
ICICI Prudential Multi-Asset Fund	d	
IDCW	0.1600	26.2438
Direct Plan – IDCW	0.1600	41.0709
ICICI Prudential Equity-Arbitrage	Fund	
IDCW	0.0500	14.2367
Direct Plan - IDCW	0.0500	15 9448

सभी पंचायतें 15 अगस्त तक यूपीआइ सुविधा से होंगी युक्त

नई दिल्ली, 29 जून (भाषा)।

देशभर में सभी पंचायतें विकास कार्यों और राजस्व संग्रह के लिए इस स्वतंत्रता दिवस से अनिवार्य रूप से डिजिटल भुगतान सेवा का उपयोग करेंगी और यूपीआइ (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) उपयोग करने वाले घोषित कर दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने एक पत्र जारी कर यह जानकारी दी। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा कि राज्यों को मुख्यमंत्रियों, सांसदों और विधायकों जैसे प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में यूपीआइ उपयोग करने वाली पंचायतों की 'घोषणा और उदघाटन' करना चाहिए।

पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार ने बताया कि लगभग 98 फीसद पंचायतें पहले से ही यूपीआइ-आधारित भुगतान करना शुरू कर चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएमएफएस) के माध्यम से लगभग

आस्था

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के

चेयरमैन मीनेश शाह ने कहा कि बोर्ड 'पराग डेयरी'

के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश के प्रदेश कोआपरेटिव

डेयरी फेडरेशन की पुनरुद्धार योजना के लिए तैयार है।

इसके लिए एक खाका तैयार हो चुका है। दूसरे

संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल के सिलसिले में बातचीत

जनसत्ता ब्यूरो

चल रही है।

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 29 जून।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने

एक लाख करोड़ डालर का

वस्तु निर्यात लक्ष्य हासिल करने

के लिए बैंकों से सुक्ष्म, लघ

और मध्यम दर्जे के उद्यम

नई दिल्ली, 29 जून।

मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा कि राज्यों को मुख्यमंत्रियों, सांसदों और विधायकों जैसे प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में यूपीआइ उपयोग करने वाली पंचायतों की 'घोषणा और उदघाटन करना चाहिए।

1.5 लाख करोड़ रुपए का भूगतान किया गया है। अब पंचायतों को भुगतान डिजिटल तरीके से किया जाएगा। चेक और नकदी से भूगतान लगभग बंद हो गया है।

उन्होंने कहा कि अब यह लगभग हर जगह पहुंच चुका है। हम पहले ही लगभग 98 फीसद पंचायतों को कवर कर चुके हैं। पंचायतों को भी सेवा प्रदाताओं और 'वेंडर' के साथ 30 जून को बैठक करने के लिए कहा गया है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम, मोबिक्कि, वाट्सऐप पे, एमेजन पे और भारत पे जैसे युपीआइ मंचों के अधिकारियों और कर्मचारियों के विवरण वाली सूची मंत्रालय ने

जबलपुर में गुरुवार को 'आषाढ़ी एकादशी' के अवसर पर भगवान विट्ठल की

्शोभायात्रा में भक्तिभाव में नृत्य करतीं महिलाएं ।

किया जा सकता है।

लिमिटेड

शाह ने बयान में कहा कि वाराणसी दुग्ध संघ की

प्रतिदिन की क्षमता एक साल के अंदर 6,000-7,000

लीटर से बढ़कर दो लाख लीटर हो गई है। इससे

साबित होता है कि दुग्ध उत्पादकों को बेहतर सेवाएं

देकर और संचालन में व्यावसायिकता और दक्षता से

हालांकि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में डेयरी क्षेत्र

पराग डेयरी के पुनरुद्धार

के लिए खाका तैयार

निर्यात लक्ष्य हासिल करने के लिए कम

ब्याज पर मुहैया कराएं ऋण: पीयूष

वाणिज्य विभाग ने निर्यात ऋग

(ईसीजीसी) के समन्वय में

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एम

सेंथिलनाथन ने कहा कि पर

इस मौके पर ईसीजीसी के

निगम

बैठक का आयोजन किया।

गारंटी

(एमएसएमई) को कम ब्याज अब एमएसएमई निर्यातकों के

पर अधिक ऋण मृहैया करने । बड़े हिस्से को पर्याप्त और सस्ता

को कहा। एमएसएमई निर्यातकों कर्ज उपलब्ध कराने के लिए

को निर्यात ऋण की उपलब्धता योजना में आगे और सुधार का

उन्होंने ये बातें कही।

साझा की है। मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, पंचायतों को 15 जुलाई तक उपयुक्त सेवा प्रदाता को चूनना होगा और 30 जुलाई तक 'वेंडर' के नाम बताने होंगे। पंचायतों को एकल 'वेंडर' को चुनने के लिए कहा गया है, जो पूरे क्षेत्र को कवर करता है। वास्तविक समय में लेनदेन की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड बनाने की भी सिफारिश की गई है। अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर जिला व ब्लाक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटील ने कहा कि डिजिटल लेनदेन चालु करने से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब ज्यादातर पंचायतें डिजिटल लेनदेन कर रही हैं। इससे भ्रष्टाचार

पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सिर्फ जनवरी, 2023 में ही 12.98 लाख करोड़ रुपए के 806.3 करोड़ लेन-देन 'भीम' के माध्यम से किए गए। इसमें से लगभग 50 फीसद लेन-देन ग्रामीण व आसपास के क्षेत्रों में हुए।

भारत के साथ 'महत्त्वाकांक्षी' व्यापार समझौता करने की इच्छा : ऋषि सुनक

लंदन, 29 जून (भाषा)।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत के साथ एक 'महत्त्वाकांक्षी' मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए सितंबर में प्रस्तावित जी20 शिखर सम्मेलन के लिए भारत जाने की संभावना भी जताई है।

सुनक ने बुधवार को अपने सरकारी निवास '10 डाउनिंग स्ट्रीट' में आयोजित 'ब्रिटेन-भारत सप्ताह 2023' समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों के कारोबारी रिश्ते बढ़ाने की व्यापक संभावना को लेकर वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूरी तरह सहमत हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मैं इस बात पर सहमत हैं कि द्विपक्षीय कारोबार के विस्तार की व्यापक संभावनाएं हैं। हम 2030 के रोडमैप पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और सही मायने में एक ऐसा महत्त्वाकांक्षी व्यापार समझौता चाहते हैं जो दोनों देशों के लिए फायदेमंद हो।

भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर पिछले साल जनवरी से ही बातचीत चल रही है। अभी तक दोनों पक्षों के बीच 10 दौर की बातचीत हो चुकी है और 11वां दौर अगले महीने होने वाला है। सुनक ने कहा कि सवाल केवल ब्रिटेन-भारत सप्ताह का ही नहीं हैं, अगले कुछ हफ्तों में पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी रहेगी। नई दिल्ली में जी20 सम्मेलन होने वाला है और मुझे वहां मौजूद रहने का इंतजार है।

केंद्रीय मंत्री ने दमोह पुलिस की सुरक्षा छोड़ने की घोषणा की

दमोह, 29 जून (भाषा)

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद समर्थक के खिलाफ पटेल ने एक व्यक्ति की आत्महत्या के मामले में अपने समर्थक के खिलाफ प्राथमिकी का

प्राथमिकी दर्ज होने पर जताई नाराजगी।

विरोध दर्ज कराने के लिए दमोह पुलिस की ओर से उन्हें प्रदान की गई सुरक्षा गुरुवार को छोड़ने की घोषणा की। दमोह में एक राशन दुकान के विक्रय प्रतिनिधि विक्रम रोहित ने पांच दिन पहले कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी।

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में दमोह नगर पालिका में पटेल के प्रतिनिधि यशपाल ठाकुर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। केंद्र सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। मंत्री ने यहां कहा कि मेरी सहानुभूति उस युवक के साथ है जिसने आत्महत्या कर ली।

लेकिन जो लोग झूठे मामले बनाते हैं या दबाव बनाने के लिए ऐसे मामले बनवाते हैं, उन्हें ध्यान से सुन लेना चाहिए कि उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि दमोह पुलिस ने जल्दबाजी में कार्रवाई की। में पुलिस अधीक्षक और कार्रवाई के खिलाफ हूं।

गो फर्स्ट की पुनरुद्धार योजना का परीक्षण करेगा डीजीसीए

मुंबई, 29 जून (भाषा)।

उत्तर प्रदेश में डेयरी सहकारी समितियों को पुनर्जीवित विमानन क्षेत्र का नियामक डीजीसीए दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही एअरलाइन गो फर्स्ट में नई जान डालने के लिए पेश योजना से संबंधित दस्तावेजों का को पुनर्जीवित करने के लिए डेयरी कोआपरेटिव और परीक्षण करने के साथ उड़ानों का संचालन दोबारा दुग्धं उत्पादक संगठनों को मिलकर काम करना होगा। शुरू करने की उसकी तैयारियों को भी परखेगा। सूत्रों ने यह जानकारी दी। गो फर्स्ट की उड़ानों का परिचालन वित्तीय समस्याएं गहराने के बाद तीन मई से ही बंद चल रहा है। इस दौरान एअरलाइन ने स्वैच्छिक रूप से दिवाला प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी लगाई थी, जिस पर उसे राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) से मंजूरी भी मिल चुकी है। चार महीने में इसीजीसी की

सूत्रों ने बताया कि गो फर्स्ट के मौजूदा प्रबंधन के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने एअरलाइन की पुनरुद्धार योजना के विभिन्न पहलुओं पर बुधवार को नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अधिकारियों के साथ

चर्चा की। घटनाक्रम से परिचित सूत्रों ने कहा कि दिवाला प्रक्रिया के समाधान पेशेवर के तौर पर नियुक्त शैलेंद्र अजमेरा और अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौशिक खोना ने पुनरुद्धार योजना के बारे में डीजीसीए अधिकारियों के समक्ष विस्तृत प्रस्तृति दी।



डीसीएम श्रीराम लिमिटेड CIN No.: L74899DL1989PLC034923 पंजीकृत कार्यालयः दूसरी मंजिल (पश्चिम विंग), वर्ल्डमार्क-1, एरोसिटी, नई दिल्ली-110037

फोन: 011-42100200 | ईमेल: shares@dcmshriram.com वेबसाइटः www.dcmshriram.com 34वीं वार्षिक आम समा तथा ई-वोटिंग जानकारी की सूचना

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि ढीसीएम श्रीराम लिमिटेड ("कंपनी") की 34वीं वार्षिक आमसभा ("एजीएम") मंगलवार, 25 जुलाई, 2023 को सुबह 10:30 बजे (आईएसटी) में कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (''एमसीए'') तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा समय–समय पर जारी विभिन्न सर्क्यूलर्स के अनुपालन में विढियों कान्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी। सदस्यों से आग्रह है कि एजीएम सूचना तिथि 10 मई, 2023 में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण कर वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में

एजीएम सूचना, ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया एवं निर्देश और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं जिनके ई-मेल आइडी कंपनी/डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत हैं। वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति उन सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी जो इसके लिए विशेष रूप से अनुरोध करेंगे।

ई—वोटिंग के लिए प्रक्रिया एवं निर्देश और वित्तीय वर्ष 2022—23 के लिए वार्धिक रिपोर्ट सहित एजीएम सूचना कंपनी की वेबसाइट www.dcmshriram.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यथा बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com. एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com और आरटीए की वेबसाइट <u>www.mcsregistrars.com</u> पर भी अपलोड एवं

कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 ("नियमावली") के नियम 20 तथा सेबी सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 "सूचीयन विनियमन") के विनियमन 44 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की घारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने में सक्षम बनाने के लिये सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ('ई—वोटिंग') की सुविधा उपलब्ध करा रही है। एजीएम की उक्त सूचना में दी गई व्यावसायिक मदों को नेशनल सिक्युरिटीज

डिपॉजिटरी लिगिटेड ('एनएसडीएल') द्वारा प्रदत्त इलेक्ट्रॉनिक बोटिंग सुविधाओं द्वारा निष्पादित किया जायेगा। सदस्यों को पुनः सूचित किया जाता है किः क) रिमोट ईं–वोटिंग शनिवार, 22 जुलाई, 2023 को 9:00 बजे पूर्वा. (आईएसटी) में शुरू होगी तथा

सोमवार, 24 जुलाई, 2023 को 5:00 बजे अप. (आईएसटी) में बंद होगी; ख) उक्त तिथि एवं समय के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली निष्क्रिय कर दी जायेगी; ग) ई-वोटिंग के लिये कट-ऑफ तिथि मंगलवार, 18 जुलाई, 2023 निर्घारित की गई है; घ) जिस व्यक्ति का नाम कट–ऑफ तिथि को आरटीए/डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित सदस्यों के रजिस्टर में अथवा लाभमोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होगा, वे ही रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में ई—वोटिंग सुविधा प्राप्त करने के लिये अधिकृत होंगे; छ) यदि कोई व्यक्ति एजीएम सूचना प्रेषण के बाद कंपनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कंपनी का सदस्य बनते हैं, तथा कट-ऑफ तिथि को शेयर घारित करते हैं, वे shares@dcmshriram.com अथवा evoting@nsdl.co.in अथवा helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिये एनएसढीएल में पहले से ही पंजीकृत हैं, तो अपना मतदान करने के लिये अपने वर्तमान युजर आईडी एवं पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, च) एजीएम में शामिल होने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा पूर्व में मतदान नहीं किये हों. उन्हें अपने मताधिकार के प्रयोग के लिये एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी; छ) जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व ई—वोटिंग द्वारा अपने मतदान कर दिये हों, वे वीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन पुनः ई-बोटिंग द्वारा मतदान करने के लिये सक्षम नहीं डोंगें।

ई—वोटिंग के निर्देशों के लिये सदस्यों से आग्रह है कि एजीएम की सूचना के नोट संख्या 27 में दिये गये निर्देशों को देख लें। किसी भी प्रकार के प्रश्न/समस्या के लिये आप www.evoting.nsdl.com. के डाउनलोड खंड में उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) तथा ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें अथवा 022-4886 7000 और 022-2499 7000 पर कॉल करें अथवा सुश्री पल्लवी म्हात्रे से evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध मेर्जे या आरटीए से श्री अमरजीत 011–41406148 (ईमेल: admin@mcsregistrars.com) या कंपनी के अधिकारी श्री अमित मेहरा/श्री विपुल जैन से 011-42100200 (ईमेल: shares@dcmshriram.com) पर

विस्तृत प्रक्रिया तथा रिमोट ई-वोटिंग, एजीएम में ई-वोटिंग का तरीका तथा वीसी/ओएवीएम आदि द्वारा एजीएम में उपस्थित होने के लिये निर्देश एजीएम सूचना में विस्तार से दी जा रही हैं।

डीसीएम श्रीराम लिए के लिये स्थानः नई विल्ली समीत गम्भीर

एसाइन्मेन्ट आधार पर दिवाला तथा दिवालिया संहिता, 2016 के अंतर्गत नान रिंडली रियलायजेबल परिसम्पत्तियाँ प्राप्त करने के लिये संभावित योग्य भागीदारे

से अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिये सार्वजनिक सूचना आमंत्रण पेट्रॉन इंजीनियरिंग कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड (परिसमापन में) CIN: L45202MH1976PLC019135 पंजी. कार्या: स्वास्तिक चैम्बर्स, छठा तल, सिऑन ट्राम्बे रोड, चेम्बूर, मुम्बई,

महाराष्ट्र-400071 ईओआई जमा करने की तिथि एवं समय : 15.7.2023 के 6.00 बजे अप.

रतद्द्वारा जैसा है जहाँ है, जो भी जैसा है, जो कुछ भी वहाँ है तथा उपचार रहित आधार पर दिवाला तथा दिवालिया सीं 2016 (संहिता) तथा भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (विनियमनों) के प्रावधा के अनुसार पेटॉन इंजीनियरिंग कन्स्टक्शन लिमिटेड (परिसमापन में) (पीएफसीएल) की परिसम्पत्तियों जो नॉट रेडिर्ल रियलायजेबल परिसम्पत्तियों (एनआरआरए) मानी जाती है, के एसाइन्मेन्ट के लिये अभिरुचि की अभिव्यक्ति जमा करने के

लिये जनता को सूचना दी जा रही है। संहिता तथा विनियमनों के प्रावधानों के अनुसार पीएफसीएल के परिसमापक बोली जमा करने के माध्यम से पीएफसीएल वे एनआरआरए से संबंधित सभी अधिकारों. हितों/परिणामों एवं दायित्वों को एसाइन करने का प्रस्ताव करते हैं। यह अभिरुवि की अभिव्यक्ति योग्य भागीदारों से एसाइन्मेन्ट आधार पर तथा प्रक्रिया दस्तावेज तिथि 30.6.2023 में वर्णित नियमों एवं शर्त के अनसार पीएफसीएल के एनआरआरए का अधिग्रहण करने में अपनी अभिरुचि जमा करने के लिये मांगी जा रही है परिसम्पत्तियों का विवरण तथा एनआरआरए के एसाइन्मेन्ट के लिये परिसमापक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पीएफसील की वेबसाइट http://petronengineering.com/liquidation-process/liquidation-process पर उपलब्ध है। संभावित भागीदारों को सलाह दी जाती है कि प्रक्रिया दस्तावेज के नियमों एवं शर्तों का पूरी तरह से अध्य्यन कर लें।

1) इच्छुक योग्य प्रक्रिया आवेदक 15.7.2023 को या पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध प्रक्रिया दस्तावेज के अनुसार अपनी अभिरुचि की अभिव्यक्ति जमा कर सकते हैं।

2) नॉन रेडिली रियलाइजेबल परिसम्पत्तियों (एनआरआरए) की सूची, अभिरुचि की अभिव्यक्ति जमा करने की प्रक्रिया, धरोहर राशि भुगतान, समय-सीमा तथा संबंधित नियमों एवं शर्तों के विस्तृत विवरणों के लिये कृपया कॉर्पीरेट डेब्टर र्क वेबसाईट http://petronengineering.com/liquidation-process/liquidation-process पर उपलब्ध प्रक्रिया सूचना दस्तावेज तिथि 30.06.2023 देखें।

3) आगे किसी भी जानकारी या स्पष्टीकरण के लिये आप कृपया परिसमापक से 011-49121644-45 पर अथवा उनके टीम मेम्बर श्री विशाल नागपाल से +91 9999944752 पर सम्पर्क करें। कृते पेट्रॉन इंजीनियरिंग कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड (परिसमापन में)

सीएस विनीत के चौधरी

पेटॉन इंजीनियरिंग कन्स्टक्शन लिमिटेड के मामले में आईबीबीआई पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00103/2017-18/10246

एएफए की वैधता 23.11.2023 तक liquidatorPEFL@vkcindia.com (प्रक्रिया विशेष)

ip.vineetchaudhary@gmail.com (आईबीबीआई में पंजीकृत) आईबीबीआई में पंजीकृत परिसमापक का पता

तिथि : 30.06.2023 स्थान : नई दिल्ली

सोना में 100 रुपए की गिरावट, चांदी अपरिवर्तित

नई दिल्ली, 29 जून (भाषा)।

विदेशों में बहुमूल्य धातुओं की कीमतों में गिरावट के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने का भाव 100 रुपए की गिरावट के साथ 58,950 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 59,050 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। हालांकि, चांदी की कीमत 71,250 रुपए प्रति किलोग्राम पर अपरिवर्तित बनी रही।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ जिंस विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा कि दिल्ली सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने की हाजिर कीमत में गिरावट जारी रही और यह 100 रुपए की गिरावट के साथ 58,950 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। विदेशी बाजारों में सोना गिरावट के साथ 1,904 डालर प्रति औंस रहा। लेकिन चांदी 22.74 डालर प्रति औंस पर लगभग अपरिवर्तित रही।

ट्रांस्कोर्प इंटरनेशनल लिमिटेड

राजि. कार्यालय:- प्लॉर्ट नंबर 3, एचएएफ पॉकेट, सेक्टर 18 ए, द्वारका, चरण-2, नई दिल्ली-110075 CIN: L51909DL1994PLC235697 वेबसाईटः www.transcorpint.com, फोनः 91-11-30418901-05, फैक्स: 91-11-30418906, ईमेल Grievance@transcorpint.com 28वीं वार्षिक साधारण सभा बुक क्लोजर कट ऑफ डेट और ई-वोटिंग की जानकारी के लिए अंशधारकों को सूचना

एतदद्वारा जरिये नोटिस ट्रांसकोर्प इंटरनेशलन लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यो को सुचित किया जाता है कि कम्पनी की 28वीं वार्षिक साधारण सभा (AGM) जैसा कि साधारण सभा के नोटिस में निर्धारित किया गय है ई-वोटिंग जरिये वीडियो कॉन्फ्रेंस / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से, व्यापार कं लेन-देन करने के लिए गुरुवार दिनांक 27 जुलाई 2023 को दोपहर 02:30 बजे आयोजित होगी। एजीएम केवल कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और 5 मई 2020, 8 अप्रैल 2020 13 अप्रैल 2020 15 जनवरी 2021 और 28 दिसंबर 2022 को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय और सेबी के परिपत्र द्वारा दिनांक 1 मई 2020 और 15 जनवरी 2021 को जारी किया गया प्रपत्र (सर्क्युलर)की अनुपालना में वीसी /ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एजीएम के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी

वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के साथ एजीएम की सूचना केवल उन्ही सदस्यों का इलेक्ट्रोनिक मोड के माध्यम रं भेजी जा रही है, जिनके ई-मेल पते कंपनी या सीडीएसएल/एनएसडीएल (डिपोजिटरी) या आरटीए के साथ पंजीकृत है और कम्पनी की वेबसाइट www.transcorpint.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। नोटिस NSDL, की वेबसाइट (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी) यानी www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

एजीएम में इलेक्ट्रोनिक माध्यम से शामिल होने के नियम एजीएम के नोटिस में दिये

जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है और भौतिक पद्धति में अंश धारण किये हुए हैं, व अपने ईमेल आईडी को पंजिकृत कराने के लिए स्व हस्ताक्षरित पत्र के साथ सदस्य का नाम और पते क उल्लेख करते हुए स्कैन स्व सत्यापित पैन कार्ड की प्रति, और स्वहस्ताक्षरित आधिकारिक वैध दस्तावेज (जैसे आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदान पहचान पत्र, पासपोर्ट) की प्रति grievance@transcorpint.com की आईडी पर भेज सकते हैं। डिमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ अपने ईमेल पते को पंजीकृत करें/ अपडेट करें।

कम्पनी ने ई-एजीएम के संचालन के लिए और ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एनएसडीएल की सेवाओं को अधिकृत एजेंसी के रूप में शामिल किया है। सदस्य रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके शेयरधारकों/सदस्य लोगइन के तहत https://www.evoting.nsdl.com पर समान एक्सेस करते हुए सोमवार दिनांक 24 जुलाई 2023 को सुबह 09.00 बजे से ऑनलाईन वोट डाल सकते हैं जो कि बुधवा दिनांक 26 जुलाई 2023 को शाम 05.00 बजे समाप्त होगा। रिमोट ई-वोटिंग अवधि समाप्त होने पर यह सुविध अक्षम हो जाएगी। एजीएम के दौरान उन सदस्यों को भी ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जं एजीएम में शामिल होते है और जिन्होने पहले अपना वोट नहीं डाला है। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई−वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल हो सकते हैं/भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से अपना वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।

केवल वे सदस्य, जिनका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या लाभार्थियों के रजिस्टर में (इलेक्ट्रोनिक शेयरहोल्डिंग के मामले में) डिपॉजिटरी द्वारा 'कट-ऑफ डेट' यानी 14 जुलाई 2023 तक दर्ज किया गया हैं, केवल वो ही evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगइन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते है। हालांकि, यदि आप पहले से ही रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है तो आप अपन वोट डालने के लिए अपने मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते है। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप ''पासवर्ड भूल गए उपयोगकर्ता विवरण / पासवर्ड?'' का उपयोग करके अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं या ''भौतिक उपयोगकर्ता रीसेट पासवर्ड?'' विकल्प

1800 1020 990/ 1800224430 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 के तहत बनाए गए नियमों और सेबी, लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण अवश्यकताद्ध विनियमन 2015 की विनियमन 42 के अनुसार कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफ बुक 15 जुलाई 2023 से 16 जुलाई 2023 दोनों दिनों तक बंद रहेंगे। और कंपनी के सदस्यों को निर्धारित करने के लिये 14 जुलाई 2023 को रिकार्ड तिथि के रूप में तय किया गया है जो लाभांश प्राप्त करने वे

www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है या निम्नलिखित टोल फी नंबर पर एनएसडीएल से संपर्क करें

श्री आनंद प्रकाश जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान और दूरस्थ ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए स्क्रूटिनाईजर के रूप में नियुक्त किया गया है। ई-वोटिंग के संबंध में प्रश्न/शिकायतें, यदि काई हो, तो कंपनी सचिव कं grievance@transcorpint.com पर ईमेल के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है या सदस्यों वे लिए और सदस्यों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू का उल्लेख कर सकते हैं और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका https://www.evoting.nsdl.com वे

डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध है या निम्नलिखित टोल फ्री नंबर पर एनएसडीएल से संपर्क करें: 1800 1020

स्थान:- नई दिल्ली दिनांक:- 30.06.2023 कृते ट्रांसकोर्प इंटरनेशनल लिमिटेड गोपाल कृष्ण शम

मैनेजिंग डायरेक्ट प्रपत्र जी फॉक्सडोम टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड जो नई दिल्ली में अन्य कम्प्यूटर संबंधित गतिविधियों (वेबसाइट्स का अनुरक्षण करने

अन्य फर्मो के लिये वेबसाइट्स के सृजन / अन्य फर्मो के लिये मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों के सृजन, इत्यादि) में परिचालनरत् है, हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति के लिये आमंत्रण

(भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (निगमित व्यक्तियों हेतु ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली २०१६ के विनियम ३६ए(१) के अंतर्गत)

	सुसंगत विवरण						
1.	पैन/सीआईएन/एलएलपी नं. के साथ निगमित देनदार का नाम	फॉक्सडोम टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड सीआईएनः U72900DL2019PTC349201					
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	आरजेड–81, एफ / एफ, इंदिरा पार्क, उत्तम नगर, पश्चिमी दिल्ली–110059					
3.	वेबसाइट का यूआरएल	अनुपलब्ध					
4.	उस स्थान के विवरण, जहां स्थायी परिसंपत्तियां बहुतायत में अवस्थित हैं	आरजेड–81, एफ / एफ, इंदिरा पार्क, उत्तम नगर, पश्चिमी दिल्ली–110059					
5.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं की संस्थापित क्षमता	अनुपलब्ध					
6.	अंतिम वित्त वर्ष में विक्रयकृत मुख्य	अनुपलब्ध					
7.	उत्पादों / सेवाओं की प्रमात्रा एवं मूल्य कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या	अनुपलब्ध					
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरणों (अनुसूचियों के साथ), ऋणदाताओं की सूचियों, प्रक्रिया के उत्तरवर्ती आयोजनों हेतु संबंधित तिथियों सहित भावी विवरण यहां पर उपलब्ध हैं:	विवरण, ईमेल आईडीः cirp.foxdomtech @gmail.com के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं।					
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अंतर्गत समाधान आवेदकों की योग्यता यहां पर उपलब्ध है:	विवरण, ईमेल आईडीः cirp.foxdomtech @gmail.com के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं।					
10.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति की अंतिम तिथि	15.07.2023					
	` ` ` `						

प्रस्तावित समाधान आवेदकगणों की 25.07.2023

¹² अनंतिम सूची पर आपत्तियां जमा करने 30.07.2023

अनंतिम सूची निर्गतन की तिथि

की अंतिम तिथि

शैलेन्द्र सिंह

समाधान व्यवसायी फॉक्सडोम टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड के सीआईआरपी के अंतर्गत आईपी पंजीकरण सं: IBBI/IPA-002/IP-N00471-2017-2018/11372

वर्तमान कार्यालय : जे–16, द्वितीय तल, जंगपुरा एक्सटेंशन, दिल्ली–110014 पंजीकृत पता : 1201ए—1201सी, 12वां तल, अशोक एस्टेट, स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 29-06-2023 24 बाराखंभा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 ई मेल आईडी : circ.foxdomtech@gmail.com, shailendralaw@gmail.com

ईओआई जमा करने हेत् प्रोसेस ईमेल cirp.foxdomtech@gmail.com

इंडिगो की संचालक फर्म का पूंजीकरण एक लाख करोड़ रुपए

बढ़ाने के मुद्दे पर बुलाइ बैठक

नई दिल्ली, 29 जून (भाषा)।

देश की सबसे बड़ी एअरलाइन इंडिगो का संचालन करने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन का बाजार पुंजीकरण बुधवार को एक लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाली पहली एअरलाइन है। बीएसई पर इंटरग्लोब एविएशन का शेयर बुधवार को 3.55 फीसद बढ़ कर

2,619.85 रुपए पर बंद हुआ। इंडिगो ने अपनी विस्तार योजनाओं को ध्यान में रखते हए पिछले हफ्ते एअरबस को 500 विमानों का पक्का आर्डर देने की घोषणा की थी।

AMBIT Finvest Pragati ke partner

प्रस्ताव किया है।

दिनांकः 30.06.2023 स्थान : दिल्ली

एंबिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए सार्वजनिक ई-नीलामी सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के परंतुक के साथ पिठत वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्ति की बिक्री के लिए 30 दिनों की ई—नीलामी बिक्री सुचना

एतद्दवारा सामान्य रूप से आम जनता को और विशेष रूप से ऋणकर्ताओं और गारंटीकर्ताओं को सचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को सरक्षित लेनदार को गिरवी 🖊 प्रभारित किया गया है. जिसका कब्जा एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड 🖊 सिक्योर्ड क्रेडिटर के प्राधिकत अधिकारी द्वारा लिया गया है जिसे यहां नीचे उल्लिखित ऋणकर्ताओं और गारंटीकर्ताओं से एंबिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड/ सिक्योर्ड क्रेडिटर के यहां नीचे उल्लिखित बकाया राशि और वसूली की . तारीख तक उस पर आगे का ब्याज और अन्य खर्च की वसली के लिए "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कछ भी है" पर नीचे दी गई तारीख और समय

सभी सेवाएं होंगे डिजिटल

प्रस्तावित योजना का लाभ उठाते

हुए एमएसएमई निर्यातकों को पर्याप्त

और सस्ता निर्यात ऋण मुहैया

कराने की सलाह दी। इससे देश

2030 तक एक लाख करोड़ डालर

का वस्तु निर्यात लक्ष्य हासिल कर

लेने में सक्षम हो सकेगा। उन्होंने

जानकारी दी कि अगले चार माह में

इसीजीसी की सभी सेवाओं का

डिजिटलीकरण हो जाएगा।


केंद्रीय मंत्री ने बैंकों को

पर बचा जाएगा। आरक्षित मूल्य, बयाना राशि जमा (इएमडी) आर इएमडी जमा करने की आतम तिथि को भी नीच उल्लेख किया गया है:								
ऋणकर्ताओं / गारंटीकर्ता ओं /ऋण खाता	डिमांड नोटिस दिनांक और राशि	अचल संपत्ति का विवरण 50 वर्ग गज यानी 41.80 वर्ग मीटर माप वाले	आरक्षित मूल्य, ईएमडी और ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	ई—नीलामी की तिथि और समय				
1. राधा कृष्ण आचार्य 2. कविता आचार्य ऋण खाता संख्या DEL000000022958	इक्कीस और इकतालीस पैसे मात्र) सहित पूर्ण भुगतान की	फ्रीहोल्ड आवासीय भूखंड क्षेत्र का वह समस्त टुकड़ा और अंश, खसरा नं. 13/20 का	रु. 35,00,000 / — (पैंतीस लाख रूपये मात्र) । ईएमडीः रु.3,50,000 / — (तीन लाख पचास हजार रूपये मात्र)	तारीखः 31.07.2023 समयः प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)				

ई–नीलामी https://ambitfinvest.auctiontiger.net पर मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के माध्यम से "ऑनलाइन" आयोजित की जाएगी। बिक्री के विस्तृत नियमें और शर्तों के लिए, कृपया मेसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) (हेल्प लाइन नंबर लैंडलाइन–79– 68136880 / 881 / 837 / 842, फोन नंबरः 9265562818/9265562821/9265562819 से संपर्क करें; संपर्क व्यक्तिः श्री राम शर्मा ईमेल आईडीः ramprasad@auctiontige.net, या लिंक https://ambitfinvest.

अधिक जानकारी के लिए, श्री विजय शर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक, मोबाइल नंबर 9887871631 ईमेल आईडी vijay.sharma@ambit.co श्री संदीप कुमार, सहायक प्रबंधक, मोबाइल न 7053016294, ईमेल आईडी: –Sandipkumar.k@ambit-co एवं श्री पीयुष कुलश्रेष्ठ, क्लस्टर संग्रह प्रबंधक, मोबाइल नंबर 9930444316, एंबिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड की ईमेल आईडीः चममलनीणनसीतमीजी / उइपजण्बव से संपर्क करें

हस्ता /-अधिकृत अधिकारी, एंबिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड







डी-38, एलजीएफ (एल/एस), साउथ एक्स्टेंशन, पार्ट-II, नई दिल्ली-110049

www.readwhere.com